

Exercices / अभ्यास

Corrigé-type - mai 2012

I - १) मंजुला ने (बिना) अपनी माँ को बताया (बिना) उसकी एक साड़ी अलमारी से निकाली थी ।

- २) तुमने (बिना) इसे चखे (बिना) कैसे कह सकते हो कि इन समोसों में नमक कम है ?
- ३) राजू (बिना) दिन के कपड़े बदले (बिना) सोया करता था ।
- ४) बच्चा (बिना) जवाब दिए (बिना) रोता रहा ।
- ५) मुन्नी, तुम ज़रा सोच लो : (बिना) स्कूल में ठीक से पढ़े (बिना) डॉक्टर कैसे बनोगी ?

II - १) उनको/उन्हें फ़्रांस आए कितना अरसा हो गया है ?

- २) मेरी बहन को गाड़ी लिए/खरीदे तीन साल होनेवाले हैं ।
- ३) राहुल, तुम्हें/तुमको फ़्रांस में काम करते (हुए) कितने साल हो गए हैं ?
- ४) रमेश को स्कूल छोड़े डेढ़ महीना हो गया होगा ।
- ५) उन छात्रों को हिन्दी पढ़ते (हुए) आठ महीने हो चुके हैं ।

III - १) जैसे ही/ज्यों ही अलार्म क्लॉक बजा/बजी (वैसे ही/त्यों ही) बोरिस अपने कमरे से निकल भागा ।

- २) देखना : जैसे ही वीक-एण्ड/सप्ताहांत आएगा (वैसे ही) मौसम खराब हो जाएगा !
- ३) जैसे ही बिल्ली बागीचे में घुसती थी/घुस जाती थी (वैसे ही) चिड़ियाँ उड़ जाती थीं ।
- ४) जैसे ही वह किसी अजनबी को देखती थी (वैसे ही) बच्ची शर्म के मारे घर के अन्दर भाग जाती थी ।
- ५) जैसे ही गाड़ी तैयार होगी/हो जाएगी (वैसे ही) मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा ।

IV - १) अलार्म क्लॉक बजते ही बोरिस अपने कमरे से निकल भागा ।

- २) देखना : वीक-एण्ड/सप्ताहांत आते ही मौसम खराब हो जाएगा !
- ३) बिल्ली के बागीचे में घुसते ही चिड़ियाँ उड़ जाती थीं ।
- ४) किसी अजनबी को देखते ही बच्ची शर्म के मारे घर के अन्दर भाग जाती थी ।
- ५) गाड़ी तैयार होते ही मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा ।

V - १) उसकी आवाज़ सुनकर दादीजी ऐसे रोने लगीं मानो कोई दुःखद बात उनको याद आई हो ।

- २) लड़कियाँ ऐसे कांप रही थीं जैसे उनको/उन्हें सर्दी/ठंड लग रही हो/थी ।
- ३) मुकुल खिड़की के पास खड़ा है मानो वह किसी का इन्तज़ार कर रहा हो ।
- ४) पिताजी ने मेरी ओर ऐसे देखा मानो वे मेरी बात न समझे हो/जैसे मेरी बात उनकी/उनको समझ में न आई हो ।
- ५) कुत्ते ऐसे भौंकने लगे थे जैसे/मानो उन्होंने कुछ देखा हो ।

VI - १) अगर लड़केवाले दहेज में ज़्यादा पैसे माँगेंगे तो हम यह शादी क़बूल नहीं करेंगे ।

- २) देखो, मुझे झूठ बोलनेवाले बच्चे बिलकुल अच्छे नहीं लगते !
- ३) पुलिसवालों ने सीटी मारी लेकिन ट्रकवाला नहीं रुका ।
- ४) मैं कौनसी साड़ी पहनूँ आज, हरीवाली या फूलोंवाली ?
- ५) अरे, तुम लोग बाहर मत जाओ, हम खाना खानेवाले हैं !

६) जल्दी आओ, प्रोग्राम शुरू होनेवाला है !

७) मैं बागीचेवाला दरवाज़ा (बागीचेवाले दरवाज़े को) बन्द करने ही वाली थी कि पीछेवाले पड़ोसी ने मुझे आवाज़ दी ।

८) उन लोगों को ढाई बजेवाली ट्रेन लेनी थी, अब लंदन पहुँचनेवाले होंगे ।

९) - क्या कलवाला नाटक तुम्हें पसन्द आया ? - हाँ, मुझे ब्रोडवे वाले नाटक बहुत अच्छे लगते हैं ।

१०) एक आदमी रेल के डिब्बे में सामान के तख्ते पर एक भारी सन्दूक रखनेवाला/डालनेवाला था कि नीचेवाली सीट पर बैठी हुई महिला बोली : "इसे किसी और जगह रखिए, कहीं मेरे सिर पर न आ गिरे ।" आदमी ने उत्तर दिया : " चिन्ता न कीजिए, इसमें कोई टूटनेवाली चीज़ नहीं है !"

VII - 1) पिताजी (दफ़्तर/ऑफ़िस) (बिना) छाता लिए (बिना) (दफ़्तर/ऑफ़िस) चले गए थे ।

2) मेरी बहन को अलग-अलग देशों से आनेवाले/आए हुए छात्रों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए डेढ़ साल हो चुका है ।

3) लड़का अपने पलंग पर ऐसे बैठा हुआ था/बैठे हुए था जैसे/मानो उसको/उसके पेट में दर्द हो रहा हो ।

4) उसे/इसे सुने बिना आप कैसे कह सकते हैं कि रानी गाना ठीक से/अच्छा नहीं गाती ?

5) विदेशी छात्रा को हिन्दी बोलते हुए सुनकर कुछ बच्चे हँसे बिना नहीं रह सके/कुछ बच्चे अपने को हँसने से नहीं रोक सके ।

VIII- १) एक महिला ने डाकिए से कहा : "मेरे पति की चिट्ठी आई होगी, ज़रा देखना तो ।"

डाकिया : "आपके पति का नाम क्या है ?"

महिला : "अब मैं अपने पति का नाम अपने मुँह से क्या बोलूँ, चिट्ठी पर ही देख लो, लिखा होगा ।"

२) टीचर : "तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग-पत्ते खानेवालों की निगाहें तेज़ होती हैं ?"

छात्र : "वाह सर, आज तक आपने किसी जानवर को चश्मा लगाते देखा, क्या ?"

३) रामू : "इस बार तुम फ़ेल कैसे हो गए ?"

चीकू : "अरे भाई, क्या बताऊँ ? मेरी बग़ल में बैठनेवाले को कुछ नहीं आता था !"